

7
 לְכַתְּבָהּ יָדַע יָדָהּ מַעֲשֵׂהָ בְּכֹל בְּרַכְוָה אֱלֹהֵיךָ כִּי יְהוָה
 जानता-है तुम्हारे-हाथ-का काम -सब-में तुम्हें आशीर्वाद-दिया-है तुम्हारे-परमेश्वर-ने यहोवा क्योंकि
 H3212 H3045 H3027 H4639 H3605 H1288 H0430 H3068

עָמְדָה אֶת-הַיָּהוָה שָׁנָה אַרְבָּעִים וָזָה הָיָה הַיָּהוָה הַיָּהוָה
 तुम्हारे-परमेश्वर यहोवा वर्ष चालीस यह -इस -बड़े -जंगल को- तुम्हारे-चलने-को
 H0430 H3068 H8141 H0705 H2088 H2088 H0853

לֹא קָסַרְתָּ דְבָרִים
 तुम्हारे-साथ घटी नहीं
 H3808 H1697 H2637

यह याद रखो कि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर, ने तुमको तुमने जो कुछ भी किया उन सभी के लिए आशीर्वाद दिया। वह इस विस्तृत मरुभूमि से तुम्हारा गुजरना जानता है। यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर इन चालीस वर्षों में तुम्हारे साथ रहा है। तुम्हें वे सभी चीजें मिली हैं जिनकी तुम्हें आवश्यकता थी।

8
 וַיַּעֲבֹר מֵאֵת אַחִינוּ בְּנֵי-עֵשָׂו הַיֹּשְׁבִים בְּשֵׁעִיר מִדְּרָהּ הָעֲרָבָה
 और-गुजरे -भाइयों-से पुत्रों एसाव-के हैं-रहते-जो-सेईर-में -मार्ग-से -अराबा-के -एलात-से
 H6160 H1870 H3427 H6215 H0251 H0854

מְאִילַת גְּבֻרֹתֵינוּ מֵאֵת וַיִּגְּלוּ מִן-הַיָּבֵשׁ מִדְּבָר מוֹאָב
 और-एस्योन-गेबर-से और-मुड़े और-गुजरे और-मुड़े और-एस्योन-गेबर-से
 H4124 H1870 H6437 H6100

“इसलिए हम लोग सेईर में रहने वाले अपने सम्बन्धी एसाव के लोगों के पास से आगे बढ़ गए। यरदन घाटी से एलात और एस्योनगेबर नगरों को जाने वाली सड़क को पीछे छोड़ दिया। तब हम उस मरुभूमि की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़े जो मोआब में है।

9
 וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי אֶל-תֵּצֵר אֶת-מוֹאָב וְאֶל-תַּחֲנֵן בָּם מִלְחָמָה כִּי
 और-कहा यहोवा-ने मेरे-प्रति नहीं नही घेरो को- मोआब और-नहीं और-तहन्नोन उन-से युद्ध क्योंकि
 H4421 H1624 H0408 H4124 H0853 H0408 H0413 H3068 H0559

לֹא-אָמַן לְךָ מֵאֲרָצוֹ יְרֻשָׁה כִּי לְבַנְיָם לֹא-נָתַתִּי אֶת-עַר יְרֻשָׁה
 नहीं दूंगा तुम्हें -उसके-देश-से अधिकार अधिकार क्योंकि लोत-के -पुत्रों-को -दिया-है को- आर अधिकार
 H3425 H0776 H5414 H3808 H3425 H0776 H5414 H3808

“यहोवा ने मुझसे कहा, ‘मोआब के लोगों को परेशान न करो। उनके खिलाफ लड़ाई न छोड़ो। मैं उनकी कोई भूमि तुमको नहीं दूंगा। वे लूट के वंशज हैं, और मैंने उन्हें आर प्रदेश दिया है।’”

10
 הָאֲמִים לְפָנַי יֹשְׁבוּ בָהּ עַם גְּדוֹל וְרַב וְרָם כְּעַנְקִים
 -एमीम रहते-थे रहते-थे पहले -उसमें पहले लोग बड़े और-बहुत और-ऊंचे -अनाकियों-की-तरह
 H3427 H6440 H6440 H0368 H6062

(पहले, आर में एमी लोग रहते थे। वे शक्तिशाली लोग थे और वहाँ उनमें से बहुत से थे। वे अनाकी लोगों की तरह बहुत लम्बे थे।

11
 רְפָאִים יֹשְׁבוּ אִתִּי הֵם וְיֹשְׁבוּ אִתָּם יְקָרְאוּ לָהֶם אֲמִים
 रपाईं समझे-जाते-थे भी वे और-मोआबी -अनाकियों-की-तरह उन्हें बुलाते-हैं एमीम
 H0368 H7121 H4125 H6062 H1992 H0637 H2803

अनाकी लोगो की तरह, एमी रपाईं लोगों के एक भाग समझे जाते थे। किन्तु मोआबी लोग उन्हें एमी कहते थे।

12
 וּבְשֵׁעִיר הַחֲרִים יֹשְׁבוּ לְפָנַי וּבְנֵי-עֵשָׂו יִירְשׁוּם וַיִּשְׁמְדוּם מִפְּנֵיהֶם וַיִּשְׁבּוּ
 और-सेईर-में रहते-थे पहले -होरी -पहले और-पुत्रों-ने एसाव-के उजाड़ा उन्हें से-सामने-उनके-और-रहे
 H3427 H2752 H6440 H3427 H3423 H6215 H8045 H6440 H3427

תַּחֲתָם כַּאֲשֶׁר עָשָׂה יִשְׂרָאֵל לְאֶרֶץ יִרְשָׁתוֹ אֲשֶׁר-נָתַן יְהוָה לָהֶם
 उनकी-जगह जैसा किया इस्राएल -देश-को अपनी-मीरास-के जो दिया यहोवा-ने उन्हें
 H8478 H3478 H0776 H3425 H5414 H3068

पहले होरी लोग भी सेईर में रहते थे, किन्तु एसाव के लोगों ने उनकी भूमि ले ली। एसाव के लोगों ने होरीतों को नष्ट कर दिया। तब एसाव के लोग वहाँ रहने लगे जहाँ पहले होरीत रहते थे। यह वैसा ही काम था जैसा इस्राएल के लोगों द्वारा उन लोगों के प्रति किया गया जो यहोवा द्वारा इस्राएली अधिकार में भूमि को देने के पहले वहाँ रहते थे।

13 עֲתָהּ אֲבָ וְעָבְרוּ לְכֶם אֶת-נַחַל זְרֵד וְנִעְבַּר אֶת-נַחַל זְרֵד :
 अब और-पार-करी तुम्हारे-लिए और-पार-किया और-पार-किया
 H6258 H0853 H2218 H0853 H2218 H2218

“यहोवा ने मुझसे कहा, ‘अब तैयार हो जाओ और जेरेद घाटी के पार जाओ।’ इसलिए हमने जेरेद घाटी को पार किया।

14 וְהַיָּמִים אֲשֶׁר-הָלַכְנוּ בְּיַעַמְקָדָשׁ עַד אֲשֶׁר-עָבַרְנוּ אֶת-נַחַל זְרֵד אֲשֶׁר-שָׁלַשִׁים
 और-दिन जो चले -कादेश-बर्नेआ-से जब पार-किया को- जेरेद अड़तीस वर्ष
 H3117 H1980 H6947 H5704 H0853 H2218 H7970

וּשְׁמֹנֶה עֶד-תָּם כָּל-הַיּוֹר אֲנָשֵׁי הַמְּלָחָמָה מִקְרָב הַמַּחְנֶה כַּאֲשֶׁר
 जब-तक सारी समाप्त-हुई पीढ़ी-के पुरुषों -बीच-से -खावनी-के जैसे शपथ-खाई यहाँवा-ने
 H8083 H8141 H5704 H8552 H3605 H1755 H0376 H4421 H7130 H4264

נִשְׁבַּע יְהוָה לָהֶם :
 उन्हें —
 H3068 H7650

कादेशबर्ने को छोड़ने और जेरेदे घाटी को पार करने में अड़तीस वर्ष का समय बीता था। उस पीढ़ी के सभी योद्धा मर चुके थे। यहोवा ने कहा था कि ऐसा ही होगा।

15 וְגַם יָד-יְהוָה הָיְתָה בָּם-לְהִמָּן מִקְרָב הַמַּחְנֶה עַד-הַיּוֹם :
 और-भी हाथ यहोवा-का था -उनमें -के-लिए घबराने-के-लिए से-बीच -खावनी-के जब-तक
 H1571 H3027 H3068 H1961 H2000 H7130 H4264 H5704 H8552

यहोवा उन लोगों के विरुद्ध तब तक रहा जब तक वे सभी नष्ट न हो गए।

16 וַיְהִי אֲשֶׁר-הָיָה כָּל-אֲנָשֵׁי הַמְּלָחָמָה לָמוֹת מִקְרָב הָעָם :
 और-हुआ जैसे-ही हुआ-सब पुरुष के-युद्ध -को-मरने से-बीच -लोगों-के
 H1961 H8552 H3605 H0376 H4421 H4191 H7130

“जब सभी योद्धा मर गए औ लोगों के बीच से सदा के लिए समाप्त हो गए।

17 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר :
 और-कहा यहोवा-ने मेरे-प्रति कहते-हुए
 H1696 H3068 H0413 H0559

तब यहोवा ने मुझसे कहा,

18 אֲמַתָּה עָבַר הַיּוֹם אֶת-גְּבוּל מוֹאָב אֶת-עַר :
 तुम गुजरते-ही -आज-के-दिन को- सीमा मोआब-की को- आर
 H3117 H0853 H1366 H4124 H0853 H6144

‘आज तुम्हें आर नगर की सीमा से होकर जाना चाहिए।

19 וְקָרַבְתָּ וּמֹל מוֹל בְּנֵי עַמּוֹן אֵל-הַצָּרָם וְאֵל-וְאֵל-וְאֵל-כִּי לָא-
 और-पास-आओगे सामने पुत्रों-के के-अम्मोन नहीं नहीं नहीं नहीं क्योंकि
 H7126 H4136 H5983 H0408 H0408 H1624 H3808

אֲתָן אֲתָן מֵאֲרָץ בְּנֵי-עַמּוֹן לְיְרֵשָׁה לְיְרֵשָׁה כִּי לְבָנֵי-לוֹט לֹט וְיָרְשָׁה :
 नहीं नहीं दूंगा -देश-से पुत्रों-के के-अम्मोन तुम्हें अधिकार क्योंकि -को-पुत्रों-के के-लोट लोत-के दिया-है
 H5414 H0776 H5983 H3425 H3876 H5414 H3425

जब तुम अम्मोनी लोगों के पास पहुँचो तो उन्हें तंग मत करना। उनसे लड़ना नहीं क्योंकि मैं तुम्हें उनकी भूमि नहीं दूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने वह भूमि लूट के वंशजों को अपने पास रखने के लिए दी है।”

יִקְרְאוּ	וְהַעֲמִינִים	לְפָנִים	בָּה	יֹשְׁבוּ	רְפָאִים	הוּא	אֵף	תְּחַשְׁב	רְפָאִים	אֶרֶץ	20
बुलाते-हैं	और-अम्मोनी	-पहले	-उसमें	रहते-थे	रपाई	वह	भी	समझी-जाती-है	रपाइयों-का	-देश	
H7121	H5984	H6440		H3427		H1931	H0637	H2803		H0776	

לְהֵם זְמוּזִים :
जमजुम्मी उन्हें
[H2157](#)

(वह प्रदेश रपाई लोगों का देश भी कहा जाता है। वे ही लोग पहले वहाँ रहते थे। अम्मोनी के लोग उन्हें जमजुम्मी लोग कहते थे।)

עַם	גְּדוֹל	וְרַב	וְרָם	כְּעֵקֶרִים	וַיִּשְׁמְרוּ	יְהוָה	מִפְּנֵיהֶם	וַיִּירָשׁוּ	21
लोग	बड़े	और-बहुत	और-ऊंचे	-अनाकियों-की-तरह	और-नष्ट-किया	यहोवा-ने	उन्हें	-उनके-सामने-से	
				H6062	H8045	H3068	H6440	H3423	

וַיִּשְׁבוּ תַחֲתָם :
और-उजाड़ा और-रहे
[H8478](#) [H3427](#)

जमजुम्मी लोग बहुत शक्तिशाली थे और उनमें से बहुत से वहाँ थे। वे अनाकी लोगों की तरह लम्बे थे। किन्तु यहोवा ने जमजुम्मी लोगों को अम्मोनी लोगों के लिए नष्ट किया। अम्मोनी लोगों ने जमजुम्मी लोगों का प्रदेश ले लिया और अब वे वहाँ रहते थे।

כְּאִשֶּׁר	עָשָׂה	לְבָנֵי	עֵשָׂו	הַיִּשְׁבִּים	בְּשֵׁעִיר	אֲשֶׁר	הַשְּׂמִיר	אֶת	הַחֹרֵי	22
जैसे	किया	-पुत्रों-के-लिए	एसाव-के	-जो-रहते-हैं	-सेईर-में	जब	नष्ट-किया	को-	-होरी	
			H6215	H3427		H8045	H0853	H2752		

מִפְּנֵיהֶם וַיִּירָשׁוּ תַחֲתָם :
-उनके-सामने-से और-उजाड़ा और-रहे
[H6440](#) [H3423](#) [H3427](#) [H8478](#) [H5704](#) [H3117](#) [H2088](#)

परमेश्वर ने यही काम एसावी लोगों के लिए किया जो सेईर में रहते थे। उन्होंने वहाँ रहने वाले होरी लोगों को नष्ट किया। अब एसाव के लोग वहाँ रहते हैं जहाँ पहले होरी लोग रहते थे।

וְהָעִוִּים	הַיִּשְׁבִּים	בְּחִצְרַיִם	עַד	עַד	עַד	כַּפְתּוֹרִים	הַיִּצְאָאִים	מִכַּפְתּוֹר	הַשְּׂמִיר	וַיִּשְׁבוּ	23
और-अव्वी	-जो-रहते-थे	-गांवों-में	तक	तक	गाज़ा	कफ्तोरी	-जो-निकले	-कफ्तोर-से	नष्ट-किया	उन्हें	
	H3427	H2699	H5704	H5804	H3732	H3318	H3731	H8045	H3427		

תַּחֲתָם :
और-रहे
[H8478](#)

और कुछ लोग कफ्तोर से आए और अव्वियों को उन्होंने नष्ट किया। अव्वी लोग अज्जा तक, नगरों में रहते थे किन्तु यहोवा ने अव्वियों को कफ्तोरी लोगों के लिए नष्ट किया।)

קָוְמוֹ	סָעוּ	וְעָבְרוּ	אֶת	גְּחַל	אֲרֹנֹן	רָאָה	נָתַתִּי	בְּיָדִי	אֶת	סִיְהוֹן	24
उठो	कूच-करो	और-पार-करो	को-	नाला	अर्नोन	देखी	दिया-है	-तुम्हारे-हाथ-में	को-	सीहोन	
	H5265	H0853			H0769	H7200	H5414	H3027	H0853	H5511	

מֶלֶךְ	חֶשְׁבּוֹן	הָאֱמֹרִי	וְאֶת	אֲרָצוֹ	הַחֹל	רָשׁ	וְהַתְּנָר	בּוֹ	מֶלֶךְ	הַחֹל	
राजा	हेशबोन-का	-एमोरी	और-को-	उसके-देश	शुरू-करो	अधिकार-करो	और-भड़काओ	उसे	युद्ध		
	H4428	H2809	H0853	H0776	H3423	H1624	H4421				

“यहोवा ने मुझसे कहा, ‘यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अर्नोन नदी की घाटी से होकर जाओ। मैं तुम्हें हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन पर विजय की शक्ति दे रहा हूँ। मैं तुम्हें उसका देश जीतने की शक्ति दे रहा हूँ। इसलिए उसके विरुद्ध लड़ो और उसके देश पर अधिकार करना आरम्भ करो।’

הַיּוֹם	הַיּוֹם	אֶחָד	תַּת	פְּתַחְהָ	וַיִּרְאֶתְהָ	עַל	פְּנֵי	הָעַמִּים	תַּחַת	כָּל	25
-दिन-के	-इस	शुरू-करूंगा	दने	भय	तुम्हारा	और-डर	तुम्हारा	-चेहरे-पर	-लोगों-के	नीचे	
H3117	H2088	H5414	H6343	H3374	H6440			H8478	H3605		

הַשְּׂמִירִים אֲשֶׁר יִשְׁמְעוּן :
सारे -आकाश-के जो सुनेंगे और-कांपेंगे तुम्हारी-खबर
[H8064](#) [H8085](#) [H7264](#) [H6440](#)

आज मैं तुम्हें सारे संसार के लोगों को भयभीत करने वाला बनाना आरम्भ कर रहा हूँ। वे तुम्हारे बारे में सूचनाएँ पाएंगे और वे भय से काँप उठेंगे। जब वे तुम्हारे बारे में सोचेंगे तब वे घबरा जाएंगे।’

26 וַאֲשַׁלַּח מַלְאָכַי מִמִּדְבָּר קַדְמוֹת אֶל-סִיחֹן מֶלֶךְ הַשָּׁבוֹן דְּבַרִי שְׁלוֹם לְאֹמֶר: 26 और-भेजा दूत -जंगल-से कदेमोत -की-ओर सीहोन राजा हेशबोन-के वचन शांति कहते-हुए H0559 H7965 H1697 H2809 H4428 H5511 H0413 H6932 H4397 H7971

“कदेमोत की मरुभूमि से मैंने हेशबोन के राजा सिहोन के पास एक दूत को भेजा। दूत ने सीहोन के सामने शान्ति सन्धि रखी। उन्होंने कहा,

27 אֶעֱבְרָה בְּאַרְצְךָ בְּדַרְךְךָ -סִדְק-פַּר-הִי בְּדַרְךְךָ -סִדְק-פַּר-הִי לֹא אֶחָלֵק אֲסוּר יְמִין וּשְׂמֹאל: 27 गुज़रूंगा -तुम्हारे-देश-में -सड़क-पर -सड़क-पर नहीं मुड़ंगा दाहिने और-बाएं H8040 H3225 H5493 H3808 H3212 H1870 H1870 H0776

‘अपने देश से होकर हमें जाने दो। हम लोग सड़क पर ठहरेंगे। हम लोग सड़क से दायें। या बाएं नहीं मुड़ेंगे।

28 אֲכַל בְּכֶסֶף תִּשְׁבְּרֵנִי וְאֶכְלֵתִי וַיְמִים בְּכֶסֶף תִּתֶנְּ לִי וְשִׁתִּיתִי רַק אֶעֱבְרָה 28 भोजन -पैसे-से -तुम्हारे-देश-में मुड़ेंगे और-खाऊंगा और-पानी और-खाऊंगा मुड़ेंगे और-पीऊंगा और-पीऊंगा केवल H7535 H8354 H5414 H3701 H4325 H0398 H7666 H3701 H0400

בְּרוּלִי: 28 गुज़रूंगा H7272

हम जो भोजन करेंगे या जो पानी पीएंगे उसका मूल्य चाँदी में चुकाएंगे। हम केवल तुम्हारे देश से यात्रा करना चाहते हैं।

29 כְּאִשֶּׁר עָשָׂה-לִי בְנֵי עֵשָׂו הַיְשָׁבִים בְּשֵׁעִיר וְהַמֹּאֲבִיּוֹת וְהַיְשָׁבִים בְּעַר-אֶרֶץ מִיָּד עָשָׂה-לִי 29 जैसा किया मेरे-लिए पुत्रों-ने एसाव-के पुत्रों-ने और-रहते-हैं और-रहते-हैं और-मोआबियों-ने और-रहते-हैं H6144 H3427 H4125 H3427 H6215

עַד-תֵּכֵן אֶשְׁרָר אֶעֱבֹר אֶת-הַיַּרְדֵּן אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נָתַן לָנוּ: 29 जब-तक पार-करूंगा को-यरदन की-ओर -देश-जो यहोवा हमारा-परमेश्वर देता-है हमें H5414 H0430 H3068 H0776 H0413 H3383 H0853 H5704

अपने देश से होकर तुम हमें तब तक जाने दो जब तक हम यरदन नदी को पार कर उस देश में न पहुँचें जिसे यहोवा, हमारा परमेश्वर, हमें दे रहा है। अन्य लोगों में से ईर में रहने वाले एसाव तथा आर में रहने वाले मोआबी लोगों ने अपने देश से हमें गुजरने दिया है।’

30 וְלֹא אֶכְלֵתִי וְאֶבְרָה אֶת-סִיחֹן מֶלֶךְ הַשָּׁבוֹן הַעֲבַרְנוּ בְּיַד-יְהוָה כִּי-לְמַעַן לְבַבּוֹ אֶת-וְאֹמְרוֹ רַחוּם אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵינוּ 30 और-नहीं चाहा सीहोन-ने राजा हेशबोन-के राजा सीहोन-के सामने तुम्हारे-सामने तुम्हारे-हाथ-में तुम्हारे-परमेश्वर-ने H0430 H3068 H7185 H2809 H4428 H5511 H0014 H3808 H3117 H3027 H5414 H4616 H3824 H0853 H0553 H7307 H0853

וְהָיָה: 30 इस-दिन-की-तरह H2088

“किन्तु हेशबोन के राजा सीहोन ने, अपने देश से हमें गुजरने नहीं दिया। यहोवा, तुम्हारे परमेश्वर ने, उसे बहुत हठी बना दिया था। यहोवा ने यह इसलिए किया कि वह सीहोन को तुम्हारे अधिकार में दे सके और उसने अब यह कर दिया है।

31 וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי רְאֵה הִחַלְתִּי-לְשׁוּרָה לְפָנַי אֶת-סִיחֹן מֶלֶךְ הַשָּׁבוֹן וְאֶת-אֶרְצוֹ 31 और-कहा यहोवा-ने और-कहा देखो मेरे-प्रति यहोवा-ने और-कहा तुम्हारे-सामने देना शुरू-किया-है तुम्हारे-सामने तुम्हारे-सामने तुम्हारे-सामने H0776 H0853 H5511 H0853 H6440 H5414 H7200 H0413 H3068 H0559

הִחַלְתִּי-לְשׁוּרָה לְפָנַי אֶת-אֶרְצוֹ: 31 अधिकार-करने-को अधिकार-करो शुरू-करो अधिकार-करो H0776 H0853 H3423 H3423

‘यहोवा ने मुझसे कहा, ‘मैं राजा सीहोन और उसके देश को तुम्हें दे रहा हूँ। भूमि लेना आरम्भ करो। यह तब तुम्हारी होगी।’

32 וַיֵּצֵא אֹרְחָיו לְקִרְיָתָאֲנֹנוּ הוּא וְכָל-עַמּוּן לְמַלְחָמָה יְהֻצָּה׃
 और-निकला सीहोन हमारे-सामने वह और-सारे- उसके-लोग युद्ध-के-लिए याहस
[H3318](#) [H5511](#) [H7125](#) [H1931](#) [H3605](#) [H4421](#) [H3096](#)

“तब राजा सीहोन और उसके सब लोग हमसे यहस में युद्ध करने बाहर निकले।

33 וַיִּתְּנֶהּ אֹרְחָיו וַיְהוּהָ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ לְפָנֵינוּ וְנָתַן אֵתוֹ אֵת-בְּנוֹ (בְּנֵי) וְאֶת-
 और-दिया और-ने यहोवा-ने हमारे-परमेश्वर-ने उसे हमारे-सामने और-मारा और-को- और-को- उसके-पुत्रों और-को-
[H5414](#) [H3068](#) [H0430](#) [H6440](#) [H5221](#) [H0853](#) [H0853](#) [H0853](#)

כָּל-עַמּוּן׃
 उसके-सारे-लोगों
[H3605](#)

किन्तु हमारे परमेश्वर ने उसे हमें दे दिया। हमने उसे, उसके नगरों और उसके सभी लोगों को हराया।

34 וַיִּנְלָכֵד אֶת-כָּל-עָרָיו בְּעֵת הַחֹוּא -וּנְחָרָם אֶת-כָּל-עִיר מְתָם
 और-ले-लिया और-को- सारे- उसके-नगरों में-समय-उस और-नष्ट-किया सारे- नगर पुरुष और-स्त्रियों
[H3920](#) [H0853](#) [H3605](#) [H6256](#) [H1931](#) [H0853](#) [H4962](#)

וְהַנְּשִׁים וְהַטָּף לֹא הִשְׁאֲרָנוּ שְׂרִיד׃
 और-बच्चों और-नहीं छोड़ा बचा-हुआ
[H0802](#) [H2945](#) [H3808](#) [H7604](#) [H8300](#)

हम लोगों ने उन सभी नगरों पर अधिकार कर लिया जो सीहोन के अधिकार में उस समय थे। हम लोगों ने हर एक नगर में लोगों—पुरुष, स्त्री तथा बच्चों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हम लोगों ने किसी को जीवित नहीं छोड़ा।

35 רָק קַבְּהֵמָה בְּזַנּוֹנוֹ לָנוּ וּשְׁלָל הָעָרִים אֲשֶׁר לְקַדְּנוּ׃
 केवल को-पशुओं-को लूटा हमारे-लिए और-लूट और-की ले-लिया
[H7535](#) [H0929](#) [H0962](#) [H7998](#) [H3920](#)

हम लोगों ने जिन नगरों को जीता उनसे केवल पशु और कीमती चीजें लीं।

36 מְעַרְעֵר אֲשֶׁר עַל-שְׂפַת נַחַל אֲרָנוֹן וְהָעִיר אֲשֶׁר בְּנַחַל וְעַד-הַגִּלְעָד
 -अरोएर-से जो जो नाला अर्नोन और-नगर जो और-तक और-गिलाद नहीं
[H6177](#) [H8193](#) [H0769](#) [H5704](#) [H1568](#)

לָא הָיְתָה קְרִיָּה אֲשֶׁר שְׂנֵבָה מִזְנוֹנוֹ אֶת-הַכֹּל נָתַן יְהוָה אֱלֹהֵינוּ
 था नगर जो जो हमसे को-सबको दिया और-ने यहोवा-ने हमारे-सामने
[H3808](#) [H1961](#) [H7151](#) [H7682](#) [H0853](#) [H3605](#) [H5414](#) [H3068](#) [H0430](#)

לְפָנֵינוּ׃
 —
[H6440](#)

हमने अरोएर नगर को जो अर्नोन की घाटी में है तथा उस घाटी के मध्य के अन्य नगर को भी हराया। यहोवा हमारे परमेश्वर ने हमें अर्नोन की घाटी और गिलाद के बीच के सभी नगरों को पराजित करने दिया। कोई नगर हम लोगों के लिए हमारी शक्ति से बाहर दृढ़ नहीं था।

37 רָק אֶל-אֶרֶץ בְּנֵי-עַמּוּן לֹא קָרַבְתָּ כָּל-יָד נַחַל יַבְבֵּק וְעָרָיו
 केवल की-ओर देश पुत्रों-के के अम्मोन-के नहीं पास-गए सारे- किनारे नाला यब्बोक और-नगरों
[H7535](#) [H0413](#) [H0776](#) [H5983](#) [H3808](#) [H7126](#) [H3605](#) [H3027](#) [H2999](#)

הָתָר וְכָל-אֲשֶׁר-צָנָה יְהוָה אֱלֹהֵינוּ׃
 -पहाड़-के और-सब जो आज़ा-दी यहोवा-ने हमारे-परमेश्वर-ने
[H2022](#) [H3605](#) [H6680](#) [H3068](#) [H0430](#)

किन्तु उस प्रदेश के निकट नहीं गए जो अम्मोनी लोगों का था। तुम यब्बोक नदी के तटों या पहाड़ी प्रदेश के नगरों के निकट नहीं गए। तुम ऐसी किसी जगह के निकट नहीं गए जिसे यहोवा, हमारा परमेश्वर हमें लेने देना नहीं चाहता था।